



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 722]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 2017/भाद्र 1, 1939

No. 722]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 23, 2017/BHADRA 1, 1939

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 1060(अ).—केन्द्र सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 30 के उपखंड (2) के खंड (ग), (ड), (च) और (छ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों को रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 कहा जाएगा.
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.
- रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 में
  - (1) अनुसूची-I के लिए निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:—

अनुसूची-1

(नियम 3 देखें)

क्र. सं.	रेलवे दावा अधिकरण पीठ के मुख्यालय	न्यायपीठ का क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
1.	अहमदाबाद	गुजरात, संघ शासित क्षेत्र दीव
2.	अमरावती	आंध्रप्रदेश
3.	बैंगलूरु	कर्नाटक

4.	भोपाल	मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़.
5.	भुवनेश्वर	ओडिसा.
6.	चंडीगढ़	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़.
7.	चेन्नै	तमिलनाडु एवं संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी.
8.	दिल्ली	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली.
9.	एर्णाकुलम	केरल एवं संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप.
10.	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा, बुलंदशहर, मुरादाबाद, बिजनौर, मथुरा, गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, सहारनपुर, ज्योतिबा फुलेनगर (अमरोहा), बागपत, एटा, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), महामाया नगर (हाथरस), मुजफ्फरनगर, रामपुर, पीलीभीत एवं मैनपुरी जिले और उत्तरांचल राज्य के देहरादून और हरिद्वार जिले.
11.	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, मिर्जापुर, राबर्टसगंज, जौनपुर, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, वाराणसी, महाराजगंज, कुसीनगर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, चंदौली, संतरविदास नगर, बलरामपुर एवं अम्बेडकर नगर जिले.
12.	गुवाहाटी (2)	असम, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड.
13.	जयपुर	राजस्थान.
14.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, संघ शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह.
15.	लखनऊ (2)	क्रम संख्या 10 और 11 के कॉलम (3) में शामिल को छोड़कर उत्तर प्रदेश के सभी जिले.
16.	मुंबई (2)	(i) महाराष्ट्र के मुम्बई, थाने, पालघर रायगढ़, पुणे, नासिक, अहमदनगर सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, धुले, नंदुरबार, औरंगाबाद एवं बीड जिले. (ii) संघ शासित क्षेत्र दमण, दादरा और नागर हवेली. (iii) गोवा.
17.	नागपुर	क्रम संख्या 16 के कॉलम (3) की मद(i) में शामिल को छोड़कर महाराष्ट्र के सभी जिले.
18.	पटना	बिहार.
19.	राँची	झारखंड.
20.	सिकन्दराबाद	तेलंगाना.”;

(2) अनुसूची 1 (क) में क्रम सं.3 एवं उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

1	2	3	4	5
“3.	दक्षिणी क्षेत्र	उपाध्यक्ष (न्यायिक)	चेन्नई	अमरावती बंगलौर चेन्नई एर्णाकुलम सिकंदराबाद

[फा. सं. 2016/टीसी (आरसीटी)/1-13]

रविनेश कुमार, कार्यकारी निदेशक (जन शिकायत)

**नोट :** प्रमुख नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 842(अ), तारीख 19 सितम्बर, 1989 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात निम्नानुसार संशोधित किए गए :—

- |  |   |
|--|---|
| 1. सा.का.नि. 700(अ), तारीख 26 नवम्बर, 1991 ; | 10. सा.का.नि. 384(अ), तारीख 22 अक्टूबर, 2003;   |
| 2. सा.का.नि. 438(अ), तारीख 21 अप्रैल, 1992;  | 11. सा.का.नि. 66(अ), तारीख 15 फरवरी, 2006;      |
| 3. सा.का.नि. 509(अ), तारीख 15 जून, 1994;     | 12. सा.का.नि. 498(अ), तारीख 23 अगस्त, 2006;     |
| 4. सा.का.नि. 270(अ), तारीख 4 जुलाई, 1996;    | 13. सा.का.नि. 283(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2007;    |
| 5. सा.का.नि. 59(अ), तारीख 4 फरवरी, 1997;     | 14. सा.का.नि. 96(अ), तारीख 22 फरवरी, 2010;      |
| 6. सा.का.नि. 719(अ), तारीख 15 अक्टूबर, 1999; | 15. सा.का.नि. 711(अ), तारीख 17 सितम्बर, 2015;   |
| 7. सा.का.नि. 167(अ), तारीख 29 फरवरी, 2000;   | 16. सा.का.नि. 464(अ), तारीख 28 अप्रैल, 2016, और |
| 8. सा.का.नि. 513(अ), तारीख 9 जुलाई, 2001;    | 17. सा.का.नि. 332(अ), तारीख 31 अप्रैल, 2017.    |
| 9. सा.का.नि. 787(अ), तारीख 2 दिसम्बर, 2002;  |   |

## MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2017

**G.S.R. 1060(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (c), (e), (f) and (g) of sub-section (2) of section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989, namely :-

- (1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Procedure) Second Amendment Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

## 2. In the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989,—

(1) for Schedule 1, the following Schedule shall be substituted, namely:—

**“SCHEDULE 1**

(See Rule 3)

<b>Sr. No.</b>	<b>Headquarters of the Bench of the Railway Claims Tribunal</b>	<b>Territorial jurisdiction of the Bench</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Ahmedabad	Gujarat, Union Territory of Diu.
2.	Amaravati	Andhra Pradesh.
3.	Bengaluru	Karnataka.
4.	Bhopal	Madhya Pradesh and Chhattisgarh.
5.	Bhubaneswar	Odisha.
6.	Chandigarh	Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Union Territory of Chandigarh.
7.	Chennai	(i) Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry.
8.	Delhi	Union Territory of Delhi.
9.	Ernakulam	Kerala and Union Territory of Lakshadweep.
10.	Ghaziabad	Districts of Agra, Bulandshahar, Moradabad, Bijnore, Mathura, Ghaziabad, Meerut, Aligarh, Saharanpur, Jyotiba Phule Nagar (Amroha), Bagpat, Etah, Firozabad, Gautam Budh Nagar (Noida), Maha Maya Nagar (Hathras), Muzaffar Nagar, Rampur, Pilibhit and Mainpuri of the State of Uttar Pradesh and Districts of Haridwar and Dehradun of the State of Uttaranchal.
11.	Gorakhpur	Districts of Gorakhpur, Deoria, Ballia, Gazipur, Azamgarh, Mau, Basti, Siddharthanagar, Mirzapur, Robertsganj, Jaunpur, Faizabad, Gonda, Bahraich, Varanasi, Maharajganj, Kushinagar, Shravasti, Sant Kabir Nagar, Chandauli, Sant Ravi Das Nagar, Balrampur and Ambedkar Nagar of Uttar Pradesh.
12.	Guwahati (2)	Assam, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh, Tripura, Manipur, Meghalaya, Nagaland.
13.	Jaipur	Rajasthan.
14.	Kolkata	West Bengal, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.
15.	Lucknow (2)	All Districts of Uttar Pradesh except those included in column (3) against serial number 10 and 11.
16.	Mumbai (2)	(i) Districts of Mumbai, Thane, Palghar, Raigad, Pune, Nasik, Ahmednagar, Satara, Ratnagiri, Sindhudurg, Kolhapur, Sangli, Solapur, Dhule, Nandurbar, Aurangabad and Beed of Maharashtra. (ii) Union Territories of Dadra, Daman and Nagar Haveli. (iii) Goa.
17.	Nagpur	All Districts of Maharashtra except those included In item (i) of column (3) against serial number 16.
18.	Patna	Bihar.
19.	Ranchi	Jharkhand.
20.	Secunderabad	Telangana.”;

(2) In Schedule 1A, for serial number 3 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“3.	South Zone	Vice-Chairman (Judicial)	Chennai	Amaravati Bengaluru Chennai Ernakulam Secunderabad”.

[F. No. 2016/TC(RCT)/1-13]

RAVINESH KUMAR, Executive Director (Public Grievances)

**Note :** The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 842(E), dated the 19<sup>th</sup> September, 1989 and subsequently amended as follows:-

- |  |  |
|--|--|
| 1. G.S.R. 700(E), dated the 26 <sup>th</sup> November, 1991; | 10. G.S.R. 384(E), dated the 22 <sup>nd</sup> October, 2003;   |
| 2. G.S.R. 438(E), dated the 21 <sup>st</sup> April, 1992;    | 11. G.S.R. 66(E), dated the 15 <sup>th</sup> February, 2006;   |
| 3. G.S.R. 509(E), dated the 15 <sup>th</sup> June, 1994;     | 12. G.S.R. 498(E), dated the 23 <sup>rd</sup> August, 2006;    |
| 4. G.S.R. 270(E), dated the 4 <sup>th</sup> July, 1996;      | 13. G.S.R. 283(E), dated the 11 <sup>th</sup> April, 2007;     |
| 5. G.S.R. 59(E), dated the 4 <sup>th</sup> February, 1997;   | 14. G.S.R. 96(E), dated the 22 <sup>nd</sup> February, 2010;   |
| 6. G.S.R. 719(E), dated the 15 <sup>th</sup> October, 1999;  | 15. G.S.R. 711(E), dated the 17 <sup>th</sup> September, 2015; |
| 7. G.S.R. 167(E), dated the 29 <sup>th</sup> February, 2000; | 16. G.S.R. 464(E), dated the 28 <sup>th</sup> April, 2016; and |
| 8. G.S.R. 513(E), dated the 9 <sup>th</sup> July, 2001;      | 17. G.S.R. 332(E), dated the 31 <sup>st</sup> March, 2017.     |
| 9. G.S.R. 787(E), dated the 2nd December, 2002;              |  |